

तिलैया पुलिस के सहयोग से पेंसोल कंपनी का नकली ग्रीस बरामद

by [Lagatar News](#)

12/03/2022 in [कोडरमा, झारखंड न्यूज़](#)



Koderma : तिलैया थाना क्षेत्र के सामंतो पेट्रोल पंप के समीप एक दुकान में दिल्ली से आयी एक विशेष टीम ने तिलैया पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर नकली ग्रीस बरामद किया है. मामले को लेकर भोपाल निवासी पेंसोल कंपनी के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एवं जांच अधिकारी अनित जग्गी (पिता प्रेम कुमार) के द्वारा तिलैया थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गयी है. तिलैया थाना में पेंसोल कंपनी के अधिकृत जांच एजेंसी लांसर के असिस्टेंट मैनेजर सुमित राय ने बताया कि नकली ग्रीस की बिक्री को लेकर पिछले एक वर्ष से उनकी टीम समय-समय पर झुमरीतिलैया शहर के विभिन्न इलाकों में बिक रहे पेंसोल कंपनी के ग्रीस पर नजर रखे हुए थे.

इसी दौरान सामंतो पेट्रोल पंप के समीप एस्के इंटरप्राइजेज दुकान में नकली ग्रीस बेचे जाने की सूचना पर तिलैया पुलिस के सहयोग से दुकान में रखे पेंसोल कंपनी के ग्रीस की जांच की गयी. इस दौरान जांच टीम के द्वारा दुकान से पेंसोल कंपनी के 2 केजी के 6 पीस, 5 केजी के 4 पीस, 7 केजी का 01 पीस, 10 केजी का 1 पीस यानी कुल 49 केजी नकली ग्रीस बरामद किया गया है. इस मामले में आवेदक के द्वारा दुकान संचालक शैलेश जैन (पिता सुरेश जैन) पर कॉपीराइट एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गयी है.

Source: <https://lagatar.in/jhumritilaiya-with-the-help-of-tilaiya-police-fake-grease-of-pensol-company-recovered/>